

दिनांक 17 जून, 1989 को प्रातः 10.30 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यालय, बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त :-

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :-

1. डा. के. एन. नाग
2. श्री एम. एल. मेहता
3. श्री सी. एस. राजन
4. श्री के. एम. मेहता
5. श्री राम गोपाल चौधरी
6. डा. आर. एस. परोदा
7. डा. आर. सी. मेहता
8. डा. एस. एस. आचार्य
9. डा. पी. एन. मेहरोत्रा
10. डा. एन. एल. अग्रवाल
11. श्री एस. आर. चौधरी
12. श्री खुशहाल सिंह

अध्यक्ष

सदस्य सचिव

आमंत्रित सदस्य

1. श्री बी. एस. उज्ज्वल
2. श्री . के. एस. माथुर
3. श्री एस. पी. पुरोहित
4. डा. जे. एस. भाटिया

डा. पी. डी. शर्मा और डा. एस. एन. सक्सेना निदेशक, कृषि अनुसंधान, दुर्गापुरा द्वारा बैठक में भाग लेने में अपनी असमर्थता पत्र की हैं ।

बैठक के प्रारम्भ में श्री सी. एस. राजन, निदेशक, कृषि विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के प्रथम बार बैठक में भाग लेने पर कुलपति ने उनका स्वागत किया और विश्वास व्यक्त किया कि उनका सहयोग विश्वविद्यालय की प्रगति में बराबर मिलता रहेगा ।

राकृवि/प्रबो-12/ प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 25.3.89 के कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार किया गया ।  
89-5/140

निर्णय लिया गया कि बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्न संशोधनों के साथ की जाय :

मद संख्या 139 अ अधिष्ठाताओं एवं निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में गठित उप समिति में प्रो. एम. वी. माथुर के स्थान पर डा. शिवनाथ सिंह कपुर का नाम जोड़ा गया । इसी अतिरिक्त विचार विमर्श के पश्चात उप समिति के सहवृत्त सदस्य के रूप में डा. आर. एस. परोदा को मनोनीत किया गया । एवं डा. आर. एस. परोदा ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमती व्यक्त की ।







